

"बिहार विधान सभा भवन शताब्दी समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक, भव्य और यादगार होगा। यह समारोह लंबे समय तक बिहार विधायिका के लिए गौरवशाली और प्रेरणापुंज बना रहेगा। इस समारोह से लोकतंत्र की जननी बिहार से पूरे देश में एक सकारात्मक और अभिनव संदेश जायेगा, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हम सब इस अवसर के गवाह नहीं भागीदार बनेंगे। इस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इस कार्यक्रम को जन-जन तक पहुँचाने के लिए इसका यू ट्यूब, फेसबुक और दूरदर्शन से लाईव प्रसारण किया जायेगा और इसका सीधा वेबकास्टिंग भी किया जायेगा। यह बातें बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने इस समारोह के सफल संचालन और प्रबंधन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में कही। इस बैठक के दौरान कार्यक्रम से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन समीक्षा की गयी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री सिन्हा द्वारा यथावश्यक निदेश भी पदाधिकारियों को दिया गया। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव तथा अभियंताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से होने वाले शताब्दी स्तंभ के शिलान्यास, इसके डिजाईन तथा बोधि वृक्ष के पौधरोपण सहित अन्य संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में वि. स. अध्यक्ष के सरकारी आवास पर होने वाले रात्रि भोज के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहलुओं पर भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी। इस बैठक में वि. प. के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय, पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन, कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री श्री आलोक रंजन, श्री कुमार रवि भवन निर्माण सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी उपस्थित थी।

इस बैठक के उपरांत उपर वर्णित सभी महानुभावों ने कार्यक्रम स्थल सहित बिहार विधान सभा परिसर का स्थल निरीक्षण किया और उपस्थित पदाधिकारियों को इसके सफल बनाने के लिए सभी पहलुओं पर गहन निगरानी करने की बात कही। इसके पश्चात् विधान सभा अध्यक्ष ने इस समारोह के लिए गठित मीडिया सलाहकार समिति की भी बैठक की।